



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 23—जून 29, 2012 (आषाढ़ 2, 1934)

No. 25]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 23—JUNE 29, 2012 (ASADHA 2, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

स्थायी आर्मी

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून 2012

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

रक्षा (एमएस)/अनुभाग

स्थायी कमीशन

सं. 234, दिनांक 25 मई 2012—राष्ट्रपति, अपने अवैतनिक वैयक्तिक
स्टाफ में निम्नलिखित नियुक्तियां करती हैं :—

अवैतनिक थल सेना एडीसी : आर्टी/एएडी-01 अप्रैल 2012 से

(आईसी-25815एम) ले जनरल गुरदीप सिंह, पविसेमै, अविसेमै,
विसेमै, आर्टी

(आईसी-25544ए) ले जनरल विनोद नयनार, पविसेमै, अविसेमै,
आर्टी (सेवा निवृत्त) के स्थान पर

आर सुन्दर
अवर सचिव

सं. 235, दिनांक 25 मई, 2012—राष्ट्रपति, सहर्ष नर्सिंग अधिकारियों
को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/
डीजीएफएमएस/एमएनएस 2586/डी(मेडिकल) दिनांक 17 जून, 1988
को जोकि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 3/98
के साथ पढ़ा जाए के अन्तर्गत 08 अगस्त 2011 (बीएससी नर्सिंग के
लिए बरिष्ठता वेतनमान एवं पदोन्नति 08 अगस्त 2010) से मिलिट्री
नर्सिंग सेवा में स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :—

लेफ्टि परख पर

ले किरण जीना (एनआर-22822एक्स), 21 सितम्बर 1986

ले चंचल शर्मा (एनआर-22823ए), 30 जून 1989

ले कीर्ति रावत (एनआर-22824एन), 20 फरवरी 1989

ले यामिनी जोशी (एनआर-22825एल), 13 फरवरी 1988

ले ममता शर्मा (एनआर-22826एन), 29 अप्रैल 1985

ले मोनिका सांगवान (एनआर-22827डब्ल्यू), 27 जुलाई 1987

ले कुसुम गुसाई (एनआर-22828वाई), 12 जून 1985

ले मिथि के (एनआर-22829एफ), 07 जुलाई 1987

ले ज्योता मित्रा (एनआर-22830डब्ल्यू), 20 नवम्बर 1985

ले प्रियंका कुमारी (एनआर-22831वाई), 18 जून 1988

ले पूनम मौर्या (एनआर-22832एफ), 04 फरवरी 1983

ले कैरोलिन क्रिस्टीना फ्रांसिस (एनआर-22833के), 22 अगस्त 1989

ले पूजा रानी (एनआर-22834एम), 09 अगस्त 1987

ले अपर्णा एन आर (एनआर-22835पी), 15 जुलाई 1988

ले जूती जॉन दास (एनआर-22836एक्स), 22 फरवरी 1989

ले दीक्षा परमार (एनआर-22837ए), 10 मार्च 1989

ले सुमन ओहलन (एनआर-22838एच), 21 दिसम्बर 1987

ले रिचा सिंह (एनआर-22839एल), 25 जून 1986

ले रिद्धिमा (एनआर-22840ए), 01 फरवरी 1987

ले चैथले शीना जैकब (एनआर-22841एच), 11 जनवरी 1989

ले आकांक्षा तिवारी (एनआर-22842एल), 20 दिसम्बर 1986

ले शांति एम एन (एनआर-22843एन), 03 मई 1987

ले संध्या कुमारी (एनआर-22844डब्ल्यू), 20 मार्च 1986

ले अमिता उज्ज्वल (एनआर-22845वाई), 23 जुलाई 1987

ले निशीकांता बिलंग (एनआर-22846एफ), 18 जून 1988

ले पुष्पा (एनआर-22847के), 06 अगस्त 1987

ले रूपा बोरा (एनआर-22848एम), 15 सितम्बर 1987

ले नेन्सी एंटो जेनिफर सी (एनआर-22849पी), 01 जून 1988

ले पूजा नेगी (एनआर-22850के), 16 मार्च 1988

राष्ट्रपति, सहर्ष नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस 2586/डी(मेडिकल) दिनांक 17 जून, 1988 को जोकि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 3/98 के साथ पढ़ा जाए के अन्तर्गत 17 फरवरी, 2011 (बीएससी नर्सिंग के लिए वरिष्ठता वेतनमान एवं पदोन्नति 17 फरवरी, 2010) से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

ले ममता चौहान (एनआर-22753एम), 01 जनवरी 1985

राष्ट्रपति, सहर्ष नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस 2586/डी(मेडिकल) दिनांक 17 जून, 1988 तथा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या

29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस 2586/डी(मेडिकल) दिनांक 02 नवम्बर, 2007 को जोकि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 17/96 व 3/98 के साथ पढ़ा जाए के अन्तर्गत 01 मार्च 2011 से सेना में स्थायी व अल्प अवधि कमीशन प्रदान करते हैं :--

ले रश्मि कुमारी (एनआर-22754पी), 15 अगस्त 1987

ले ज्योति मिश्रा (एनआर-22755एक्स), 19 जून 1988

ले सोना वर्मा (एनआर-22756ए), 02 अक्टूबर 1984

ले शिवांगी क्षेत्री (एनआर-22757एच), 04 अगस्त 1987

ले नीलम कुंवर (एनआर-22758एल), 18 जून 1983

ले निशा चहर (एनआर-22759एन), 04 जुलाई 1987

ले लुगईकिम जो (एनआर-22760एच), 26 मार्च 1989

ले संगीता दे (एनआर-22761एल), 23 अगस्त 1987

ले अनीना अन्यन के (एनआर-22762एन), 28 मई 1985

ले गायत्री पात्रा (एनआर-22763डब्ल्यू), 06 जून 1985

ले सुधा झा (एनआर-22764वाई), 22 अगस्त 1987

ले कविता बी (एनआर-22765एल), 14 मई 1986

ले सुमी एस सिवन (एनआर-22766के), 27 फरवरी 1988

ले नूतन यादव (एनआर-22767एम), 10 मार्च 1989

ले सुमी तेहलान (एनआर-22768पी), 05 अगस्त 1989

ले तृप्ति कला (एनआर-22769एक्स), 09 जुलाई 1987

ले नीलम तोमर (एनआर-22770एम), 10 जनवरी 1989

ले पूनमजीत कौर (एनआर-22771पी), 19 फरवरी 1989

ले रितु कुमारी (एनआर-22772एक्स), 13 मार्च 1985

ले रूबीना डी विश्वनाथ (एनआर-22773ए), 11 जनवरी 1988

ले ज्योत्सना (एनआर-22774एच), 07 अगस्त 1984

ले अर्पिता कुमारी (एनआर-22775एल), 17 दिसम्बर 1987

ले पुष्पा (एनआर-22776एन), 23 जनवरी 1988

ले कविता कुमारी (एनआर-22777डब्ल्यू), 04 अप्रैल 1989

ले श्रीदेवी सीसी (एनआर-22778वाई), 29 दिसम्बर 1986

ले प्रियंका शर्मा (एनआर-22779एफ), 08 जुलाई 1987

ले सुजाता साहा (एनआर-22780डब्ल्यू), 18 अप्रैल 1983

ले हिमा के के (एनआर-22781वाई), 17 फरवरी 1989

ले सरोज कुमारी गुप्ता (एनआर-22782एफ), 05 जून 1987

ले सिमरजीत कौर (एनआर-22783के), 13 दिसम्बर 1986

ले मीनाक्षी झांगरा (एनआर-22784एम), 01 जुलाई 1988

ले सलमा वी एस (एनआर-22785पी), 15 दिसम्बर 1986
 ले अनु एम (एनआर-22786के), 31 मई 1989
 ले कार्तिका एस (एनआर-22787ए), 17 जनवरी 1989
 ले पूजा कुमारी (एनआर-22788एच), 09 जून 1984
 ले गौतमी सरस्वती (एनआर-22789एल), 19 अक्टूबर 1984
 ले सुनीता (एनआर-22790ए), 03 नवम्बर 1986
 ले बीनो राव (एनआर-22791एच), 08 अगस्त 1987
 ले दिव्या बी (एनआर-22792एल), 21 दिसम्बर 1988
 ले श्रुति कैमल (एनआर-22793एन), 16 जनवरी 1988
 ले बबीता के (एनआर-22794डब्ल्यू), 17 दिसम्बर 1988
 ले सबा रशीद (एनएस-22795वाई), 30 सितम्बर 1985
 ले मीना थापा (एनएस-22796एफ), 25 नवम्बर 1987
 ले अनीता देवी (एनएस-22797के), 04 जुलाई 1988
 ले श्रीना सी (एनएस-22798एम), 13 दिसम्बर 1987
 ले जसविन्दर कौर (एनएस-22799पी), 21 नवम्बर 1986
 ले मृणालिनी (एनएस-22800वाई), 12 जुलाई 1988
 ले सुमन कुमारी (एनएस-22801एफ), 01 जून 1989
 ले ममता (एनएस-22802के), 11 दिसम्बर 1988
 ले सीन्या सहदेवन (एनएस-22803एम), 09 नवम्बर 1987
 ले वीनिता सिंह (एनएस-22804पी), 18 अप्रैल 1988
 ले स्वाति (एनएस-22805एक्स), 07 अगस्त 1988
 ले रोशना पी (एनएस-22806ए), 03 दिसम्बर 1988
 ले कुमारी अनुराधा (एनएस-22807एच), 15 फरवरी 1989
 ले ज्योति कुमारी धामा (एनएस-22808एल), 24 अगस्त 1988
 ले गीता मेहता (एनएस-22809एन), 28 अप्रैल 1989
 ले श्वेता गौर (एनएस-22810एच), 11 नवम्बर 1986
 ले रम्या के (एनएस-22811एल), 15 फरवरी 1988
 ले उषा कुमारी (एनएस-22812एन), 06 फरवरी 1987
 ले चैताली नाथ (एनएस-22813डब्ल्यू), 19 सितम्बर 1987
 ले मधु बाला (एनएस-22814वाई), 15 अगस्त 1989
 ले अंबिका सी आर (एनएस-22815एफ), 16 नवम्बर 1987
 ले सुनीता चौहान (एनएस-22816के), 15 जून 1988
 ले मैरी नीतू जोसफ (एनएस-22817एम), 12 अक्टूबर 1988
 ले जोशना एम के (एनएस-22818पी), 11 सितम्बर 1987

ले वीनू पाण्डे (एनएस-22819एक्स), 12 अगस्त 1989
 ले दिव्या टी एच (एनएस-22820एम), 05 नवम्बर 1982
 ले वी के श्रुति (एनएस-22821पी), 10 नवम्बर 1987

राष्ट्रपति, सहर्ष नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस 2586/डी(मेडिकल) दिनांक 17 जून, 1988 को जोकि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 3/98 के साथ पढ़ा जाए के अन्तर्गत 07 अगस्त 2010 (बीएससी नर्सिंग के लिए वरिष्ठता वेतनमान एवं पदोन्नति 07 अगस्त 2009) से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

ले प्रेरणा सिंह (एनआर-22377के), 03 नवम्बर 1985
 ले चंदना (एनआर-22378एम), 11 मार्च 1988
 ले गीता देवी (एनआर-22379पी), 17 जून 1987
 ले गीतांजलि सहगल (एनआर-22380के), 05 सितम्बर 1987
 ले भावना गौर (एनआर-22381एम), 16 मई 1988
 ले सुनीता देवी (एनआर-22382पी), 10 जून 1986
 ले लोरिना डोरोथी प्रकाश (एनआर-22383एक्स), 15 नवम्बर 1987
 ले दीपिका शेरोन (एनआर-22384ए), 11 अगस्त 1986
 ले नीलम चंद (एनआर-22385एच), 14 मार्च 1985
 ले प्रियंका चौबे (एनआर-22386एल), 25 मई 1987
 ले क्रिस्टीना (एनआर-22387एन), 03 फरवरी 1988
 ले सानिया ठाकुर (एनआर-22388डब्ल्यू), 08 अक्टूबर 1987
 ले अर्चना शर्मा (एनआर-22389वाई), 27 अक्टूबर 1985
 ले सुमि मैथ्यू (एनआर-22390एन), 20 फरवरी 1987
 ले सुमन कुमारी (एनआर-22391डब्ल्यू), 22 जुलाई 1987
 ले कंचन बाला कुण्डल (एनआर-22392वाई), 08 मार्च 1987
 ले प्रतिभा रानी (एनआर-22393एफ), 31 अक्टूबर 1987
 ले नेहा कटोच (एनआर-22394के), 20 नवम्बर 1984
 ले रजनी आर (एनआर-22395एम), 15 फरवरी 1988
 ले सिजो के थॉमस (एनआर-22396पी), 05 अगस्त 1986
 ले सीता देवी (एनआर-22397एक्स), 17 जून 1987
 ले जिजी वी नायर (एनआर-22398ए), 17 अप्रैल 1987
 ले शीतल (एनआर-22399एच), 27 जनवरी 1984
 ले सोनिका क्षेत्री (एनआर-22400एम), 05 मार्च 1988
 ले उषा पाण्डे (एनआर-22401पी), 09 दिसम्बर 1985
 ले दीपा बिष्ट (एनआर-22402एक्स), 25 मार्च 1985

ले सविता पाण्डे (एनआर-22403ए), 22 अगस्त 1987
 ले सुमन वर्मा (एनआर-22404एच), 09 दिसम्बर 1985
 ले रिनी राज (एनआर-22405एल), 26 मार्च 1987

जे के ग्रेवाल
 मेजर जनरल
 अतिरिक्त महानिदेशक, एमएनएस

स्थायी आर्मी
 मिलिट्री नर्सिंग सेवा
 स्थायी कमीशन

सं. 236, दिनांक 28 मई 2012--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं:--

कर्नल लतिलेखा एमके (एनआर-17161वाई), 18 मई 2011

ले कर्नल (सेलेक्ट) से कर्नल

कर्नल आई डी राय (एनआर-16482के), 01 जून 2009

कर्नल श्यामली सेन (एनआर-16827ए), 01 जुलाई 2009

कर्नल पी जी उषा देवी (एनआर-17213के), 04 जुलाई 2011

ले कर्नल (टी एस) से ले कर्नल (सेलेक्ट)

ले कर्नल उमा सीरह (एनआर-17655एच), 01 अक्टूबर 2009

ले कर्नल श्यामली सेन (एनआर-16827ए), 29 दिसम्बर 2004

ले कर्नल लतिलेखा एमके (एनआर-17161वाई), 04 जून 2007

ले कर्नल आई डी राय (एनआर-16482के), 12 अप्रैल 2005

ले कर्नल टी वी राजलक्ष्मी (एनआर-17646एफ), 01 अक्टूबर 2009

ले कर्नल पी जी उषा देवी (एनआर-17213के), 30 जून 2007

ले कर्नल ए के मर्सी (एनआर-17380ए), 14 जुलाई 2008

ले कर्नल एन ललिता (एनआर-17747पी), 15 जून 2010

ले कर्नल वसन्ता कुमारी जी (एनआर-16945एन), 03 जुलाई 2006

ले कर्नल टी. मैथ्युस (एनआर-16654एन), 20 दिसम्बर 2004

ले कर्नल सावित्रीम्मा (एनआर-17402एन), 22 सितम्बर 2008

ले कर्नल राजपलजित कौर (एनआर-16852वाई), 03 जुलाई 2006

ले कर्नल पी एस कुसुमा कुमारी (एनआर-18058ए), 16 सितम्बर 2011

ले कर्नल एलिस वी एस (एनआर-17980एच), 01 अगस्त 2011

ले कर्नल विगनेश्वरी अम्मल के (एनआर-17991पी), 17 अगस्त 2011

ले कर्नल कुंजुमोल पी (एनआर-18018वाई), 17 अगस्त 2011

ले कर्नल सुधामनी सी के (एनआर-18022एफ), 17 अगस्त 2011

ले कर्नल जी वसुन्धरा देवी (एनआर-18044ए), 17 अगस्त 2011

ले कर्नल मालविका चौधरी (एनआर-18052वाई), 17 अगस्त 2011

ले कर्नल मनोज भट्ट (एनआर-18225एल), 17 अगस्त 2011

ले कर्नल ए बी सरला (एनआर-18239एल), 17 अगस्त 2011

ले कर्नल पुनीता शर्मा (एनआर-18243एन), 17 अगस्त 2011

मेजर से ले कर्नल (टी एस)

ले कर्नल एलिस जॉर्ज (एनआर-19023डब्ल्यू), 08 जुलाई 2007

ले कर्नल देवकी देवी के एम (एनआर-19026के), 08 जुलाई 2007

ले कर्नल अनूप कुमारी (एनआर-19032एक्स), 08 जुलाई 2007

कैप्टन से मेजर

मेजर पुष्पलता रावत (एनआर-21243वाई), 02 अगस्त 2011

मेजर राधा (एनआर-21244एफ), 02 अगस्त 2011

मेजर पूजा शर्मा (एनआर-21245के), 02 अगस्त 2011

मेजर मंजु राणा (एनआर-21246एम), 02 अगस्त 2011

मेजर शिप्रा डोरथी रॉय (एनआर-21247पी), 02 अगस्त 2011

मेजर पूनम (एनआर-21249ए), 02 अगस्त 2011

मेजर प्रियम सारम्मा वर्गिस (एनआर-21250पी), 02 अगस्त 2011

मेजर जया शर्मा (एनआर-21251एक्स), 02 अगस्त 2011

मेजर सीमा थॉमस (एनआर-21252ए), 02 अगस्त 2011

मेजर श्रुति सिंह (एनआर-21253एच), 02 अगस्त 2011

मेजर प्रीती उपाध्याय (एनआर-21254एल), 02 अगस्त 2011

मेजर रोसी राउत (एनआर-21255एन), 02 अगस्त 2011

मेजर चंचल रानी (एनआर-21257वाई), 02 अगस्त 2011

मेजर निशा कुमारी पंडित (एनआर-21258एफ), 02 अगस्त 2011

मेजर पूजा शर्मा (एनआर-21259के), 02 अगस्त 2011

मेजर प्रतिमा रावत (एनआर-21260वाई), 02 अगस्त 2011

मेजर प्रीतामोल बाबू (एनआर-21262के), 02 अगस्त 2011

मेजर भावना बुधोरी (एनआर-21263एम), 02 अगस्त 2011

मेजर कमलेश कुमारी मिश्रा (एनआर-21264पी), 02 अगस्त 2011

मेजर आरती मिश्रा (एनआर-21265एक्स), 02 अगस्त 2011

मेजर नूरजहाँ (एनआर-21266ए), 02 अगस्त 2011

मेजर नीलम राठौर (एनआर-21267एच), 02 अगस्त 2011

मेजर रीना (एनआर-21268एल), 02 अगस्त 2011

मेजर संध्या आर नायर (एनआर-21269एन), 02 अगस्त 2011
 मेजर थोकचम राधा प्यारी देवी (एनआर-21270एच), 02 अगस्त 2011
 मेजर सथी बिस्वास (एनआर-21271एल), 02 अगस्त 2011
 मेजर लिपिका दे (एनआर-21272एम), 02 अगस्त 2011
 मेजर रजनी जगदेवा (एनआर-21273डब्ल्यू), 02 अगस्त 2011
 मेजर लीना के (एनआर-21274वाई), 02 अगस्त 2011
 मेजर अर्पणा (एनआर-21275एफ), 02 अगस्त 2011
 मेजर डेलिफन एलकजंडर पीटर (एनआर-21276के), 02 अगस्त 2011
 मेजर पूजा (एनआर-21277एम), 02 अगस्त 2011
 मेजर झंकृता हालदार (एनआर-21278पी), 02 अगस्त 2011
 मेजर ज्योतिप्रभा शरण (एनआर-21279एक्स), 02 अगस्त 2011
 मेजर पुष्पा भट्ट (एनआर-21280एम), 02 अगस्त 2011
 मेजर रेहना वी आर (एनआर-21281पी), 02 अगस्त 2011
 मेजर मोमिता अधिकारी (एनआर-21282एक्स), 02 अगस्त 2011
 मेजर पूजा झा (एनआर-21285एल), 02 अगस्त 2011
 मेजर आरती रानी (एनआर-21287डब्ल्यू), 02 अगस्त 2011
 मेजर रचना चौहान (एनआर-21292एफ), 02 अगस्त 2011
 मेजर पारना मलिक (एनआर-21294एन), 02 अगस्त 2011
 मेजर सरोज (एनआर-21295पी), 02 अगस्त 2011
 मेजर प्रेमलता (एनआर-21297ए), 02 अगस्त 2011
 मेजर पूजा शर्मा (एनआर-21299एल), 02 अगस्त 2011
 मेजर ए वलारमती (एनआर-21301एक्स), 02 अगस्त 2011
 मेजर एम वी इन्दु (एनआर-21303एच), 02 अगस्त 2011
 मेजर श्रीलिमा नायर (एनआर-21306डब्ल्यू), 02 अगस्त 2011
 मेजर आकांक्षा हालदार (एनआर-21307वाई), 02 अगस्त 2011
 मेजर निता के (एनआर-21308एफ), 02 अगस्त 2011
 मेजर अंजलि चौहान (एनआर-21311एफ), 02 अगस्त 2011
 मेजर मेरिना सोनी बरनार्ड (एनआर-21288वाई), 03 अगस्त 2011

लेफ्टि से कैप्टन के रैंक में

कैप्टन मनीषा शर्मा (एनआर-21944पी), 13 अगस्त 2011

कैप्टन गुंजन नागर (एनआर-21945एक्स), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन अखिला वी (एनआर-21946ए), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन आर कलाईवेनी (एनआर-21947एच), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन सपना तिवारी (एनआर-21948एल), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन विदुषी सोलंकी (एनआर-21949एन), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन सपना कौशिक (एनआर-21950एच), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन गीतू चन्द्रादास (एनआर-21951एल), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन पल्लवी यादव (एनआर-21952एन), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन प्रभजोत कौर (एनआर-21953डब्ल्यू), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन ज्योति लक्ष्मी एम आर (एनआर-21954वाई), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन तृप्ति सिंह (एनआर-21955एफ), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन सुमन गिरि (एनआर-21956के), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन दीपाली सुरेश माने (एनआर-21957एम), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन पूजा नेगी (एनआर-21958पी), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन अस्वथी पी वी (एनआर-21959एक्स), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन नितिका सूद (एनआर-21960एम), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन रंजना बानिक (एनआर-21961पी), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन ओलिविया बैनर्जी (एनआर-21962एक्स), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन सरिता रावत (एनआर-21963ए), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन सौमी सरकार (एनआर-21964एच), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन पुष्पा शर्मा (एनआर-21965एल), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन सपना गागडा (एनआर-21966एन), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन बिपाशा रॉय (एनआर-21967डब्ल्यू), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन प्रियंका चन्द्रा (एनआर-21968वाई), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन लकरा सुसन जे एफ (एनआर-21969एफ), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन स्मृति एम (एनआर-21970डब्ल्यू), 13 अगस्त 2011
 कैप्टन दीप्तिराज सी (एनएस-21870एल), 16 मार्च 2011
 कैप्टन हेलेन प्रेमा एस (एनएस-21871एन), 16 मार्च 2011
 कैप्टन कविथई सेन्दुरी वी जी एस (एनएस-21872डब्ल्यू), 16 मार्च 2011

2011

कैप्टन नागुरी शबाना आजमी (एनएस-21873वाई), 16 मार्च 2011

कैप्टन एम प्रेमा (एनएस-21874एफ), 16 मार्च 2011	कैप्टन वानी एस (एनएस-21855डब्ल्यू), 05 जनवरी 2011
कैप्टन एस टी जयचन्द्रा (एनएस-21875के), 16 मार्च 2011	कैप्टन दीपा पी (एनएस-21856वाई), 05 जनवरी 2011
कैप्टन श्रीदेवी अचनघट (एनएस-21876एम), 16 मार्च 2011	कैप्टन पी सांथनालक्ष्मी (एनएस-21857एफ), 05 जनवरी 2011
कैप्टन मालती पी (एनएस-21877पी), 16 मार्च 2011	कैप्टन वी इलामथी (एनएस-21858के), 05 जनवरी 2011
कैप्टन जी पापागांधी (एनएस-21878एक्स), 16 मार्च 2011	कैप्टन डी चित्रा (एनएस-21859एम), 05 जनवरी 2011
कैप्टन मन्दन ग्याना प्रसूना (एनएस-21879ए), 16 मार्च 2011	कैप्टन ख्वारेपम मैमथोई देवी (एनएस-21860एफ), 05 जनवरी 2011
कैप्टन रामालक्ष्मी ए (एनएस-21880पी), 16 मार्च 2011	कैप्टन सुजिशा ओ पी (एनएस-21861के), 05 जनवरी 2011
कैप्टन अनिशा यू एम (एनएस-21881एक्स), 16 मार्च 2011	कैप्टन एस अरोकियामरी (एनएस-21862एम), 05 जनवरी 2011
कैप्टन रम्या आर (एनएस-21830के), 05 जनवरी 2011	कैप्टन टी जयंधि (एनएस-21863पी), 05 जनवरी 2011
कैप्टन नित्या एस (एनएस-21831एम), 05 जनवरी 2011	कैप्टन एस सान्थी (एनएस-21864एक्स), 05 जनवरी 2011
कैप्टन नेहा (एनएस-21833एक्स), 05 जनवरी 2011	कैप्टन विजयलक्ष्मी (एनएस-21865एक्स), 05 जनवरी 2011
कैप्टन जी देवी (एनएस-21834ए), 05 जनवरी 2011	कैप्टन लोधाखुशाली सुमन सिंह (एनएस-21866एच), 05 जनवरी 2011
कैप्टन रानी कल्पना आर (एनएस-21835एच), 05 जनवरी 2011	कैप्टन वनजक्षी बी भविकती (एनएस-21867एल), 05 जनवरी 2011
कैप्टन स्नेहलता (एनएस-21836एल), 05 जनवरी 2011	कैप्टन एस पेकियालक्ष्मी (एनएस-21868एन), 05 जनवरी 2011
कैप्टन पोन्नमनी ए (एनएस-21837एन), 05 जनवरी 2011	
कैप्टन कोल्हे वनिता साहेबराव (एनएस-21838डब्ल्यू), 05 जनवरी 2011	जे के ग्रेवाल मेजर जनरल अतिरिक्त महानिदेशक, एमएनएस
कैप्टन वेनुथई एस (एनएस-21839वाई), 05 जनवरी 2011	-----
कैप्टन सरबजीत कौर मान (एनएस-21840एन), 05 जनवरी 2011	सेना शाखा
कैप्टन लगाइलू दाईमे (एनएस-21841डब्ल्यू), 05 जनवरी 2011	सं. 237, दिनांक 28 मई 2012--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सेना चिकित्सा कोर अधिकारी की सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--
कैप्टन अस्था लक्ष्मी आर (एनएस-21842वाई), 05 जनवरी 2011	नियमित सेना
कैप्टन अमृता साहू (एनएस-21843एफ), 05 जनवरी 2011	स्थायी कमीशन
कैप्टन राजलक्ष्मी (एनएस-21844के), 05 जनवरी 2011	मेजर के पद पर
कैप्टन सी वलारमथी (एनएस-21845एम), 05 जनवरी 2011	दिपक हिरा (एमएस-15746एन) (एमआर-09246ए), एएमसी, 25 अक्टूबर 2009
कैप्टन रंजिनी के (एनएस-21846पी), 05 जनवरी 2011	(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जुलाई 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)
कैप्टन एम एस मैथिली (एनएस-21847एक्स), 05 जनवरी 2011	सिंह सुधीर अखिलेश कुमार (एमएस-15600ए) (एमआर-09239के), एएमसी, 06 मार्च 2008
कैप्टन मैरी वुंगाथियानमोई (एनएस-21849एच), 05 जनवरी 2011	(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जुलाई 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)
कैप्टन जी आर जानकी (एनएस-21851ए), 05 जनवरी 2011	
कैप्टन एम डी जहारबी (एनएस-21852एच), 05 जनवरी 2011	
कैप्टन रिनू मैथ्यू (एनएस-21853एल), 05 जनवरी 2011	
कैप्टन निमरिचोन इयूडोंग (एनएस-21854एन), 05 जनवरी 2011	

कप्तान के पद पर

नित्या नायर (एमएस-15507वाई) (एमआर-09241एफ), एएमसी,
06 फरवरी 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 18 अक्टूबर 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

इन्द्रनील सामंता (एमएस-15280डब्ल्यू) (एमआर-09252एन), एएमसी, 20 फरवरी 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05 जुलाई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

विपिन सुकुमारन (एमएस-15535एल) (एमआर-09262एक्स), एएमसी, 06 फरवरी 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 18 अक्टूबर 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

सौरभ शर्मा (एमएस-15527एम) (एमआर-09268वाई), एएमसी,
06 फरवरी 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 23 अगस्त 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

अनुज अग्रवाल (एमएस-15295वाई) (एमआर-09273के), एएमसी,
20 फरवरी 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 24 नवम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मासं)

सेना शाखा

सं. 238, दिनांक 29 मई 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर के पद पर

देबकल्यान माजी (एमएस-15710पी) (एमआर-09240वाई), एएमसी, 25 अक्टूबर 2011

ब्रज किशोर सिंह (एमएस-15734वाई) (एमआर-09245एक्स), एएमसी, 25 अक्टूबर 2011

कप्तान के पद पर

सुनंदन भट्ट (एमएस-15706एम) (एमआर-09238एम), एएमसी,
25 अप्रैल 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 25 दिसम्बर 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

सिंह सुधीर अखिलेश कुमार (एमएस-15600ए) (एमआर-09239के), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 06 मार्च 2004 से हो जाएगी इसमें पी जी डिग्री एम डी (पी एस एम) के लिए दी गई 36 महीने की पूर्व वरिष्ठता एवं 06 महीने की अस्पताल नियुक्ति भी शामिल है, [36 + 06 = 42 महीने] जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 13 मार्च 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

देबकल्यान माजी (एमएस-15710पी) (एमआर-09240वाई), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 25 अक्टूबर 2007 से हो जाएगी (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी)

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 02 फरवरी 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

सुनिल माथ्युस (एमएस-15722के) (एमआर-09244पी), एएमसी,
25 अप्रैल 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 16 मई 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

विशाल वर्मा (एमएस-15826एल) (एमआर-09243एन), एएमसी,
13 मई 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 16 मई 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

किरन मारिबाशेट्टी (एमएस-15576पी) (एमआर-09242के),
एएमसी, 06 सितम्बर 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 मई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

ब्रज किशोर सिंह (एमएस-15734वाई) (एमआर-09245एक्स),
एएमसी, 25 अप्रैल 2008

वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 25 अक्टूबर 2007 से हो जाएगी (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी)

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 02 जनवरी 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

दीपक हिरा (एमएस 15746एन) (एमआर-0946ए), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 25 अक्टूबर 2005 से हो जाएगी इसमें 30 महीने की पूर्व वरिष्ठता (24 महीने पी जी डिप्लोमा [प्रसूति विज्ञान] के लिए एवं 06 महीने अस्पताल नियुक्ति के लिए) भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी)

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 02 जनवरी 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

मीनाक्षी राजपूत (एमएस-15891एल) (एमआर-09247एच),
एएमसी, 12 अगस्त 2008

वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 12 फरवरी 2008 से हो जाएगी (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी)

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जुलाई 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

दीपक पोखरिया (एमएस-15735एफ) (एमआर-09253डब्ल्यू),
एएमसी, 25 अप्रैल 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 22 अगस्त 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

दिलिप कुमार दीपक (एमएस-15767के) (एमआर-09254वाई),
एएमसी, 25 अप्रैल 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 13 मार्च 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

नरेन्द्र कुमार मधुकर (एमएस-15830एन) (एमआर-09255एफ),
एएमसी, 22 मई 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 16 मई 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

गौरव कुलश्रेष्ठ (एमएस-15762एल) (एमआर-09258पी), एएमसी,
25 अप्रैल 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 16 मई 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

मनु एन (एमएस-15871एक्स) (एमआर-09259एक्स), एएमसी,
12 अगस्त 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 13 मार्च 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

ब्रजमोहन चौधरी (एमएस-15785एम) (एमआर-09251एल),
एएमसी, 25 अप्रैल 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 16 मई 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

कुलदीप मेरतिया (एमएस-15759एल) (एमआर-09260एम),
एएमसी, 25 अप्रैल 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 16 मई 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

श्रुति (एमएस-15557के) (एमआर-09261पी), एएमसी, 05 जून
2007

फेलसन फ्रान्सिस व्ही (एमएस-15721एफ) (एमआर-09264एच),
एएमसी, 25 अप्रैल 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 16 मई 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

पटेल कश्यपकुमार चन्द्रकांतभाई (एमएस-15849एफ) (एमआर-
09265एल), एएमसी, 12 अगस्त 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 13 मार्च 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

आदित्य गुप्ता (एमएस-15764डब्ल्यू) (एमआर-09266एन),
एएमसी, 25 अप्रैल 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 सितम्बर 2011 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

अंजन पी (एमएस-15705के) (एमआर-09269एफ), एएमसी,
25 अप्रैल 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 16 मई 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

अनिल कुमार शर्मा (एमएस-15912डब्ल्यू) (एमआर-09272एफ), एएमसी, 12 अगस्त 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 01 मई 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

भुपेन्द्र सिंह (एमएस-15729एन) (एमआर-09274एन), एएमसी,
25 अप्रैल 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 16 मई 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

सचिन शर्मा (एमएस-15841ए) (एमआर-09276एक्स), एएमसी,
22 मई 2008

वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 22 नवम्बर 2007 से हो जाएगी (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी)

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 02 जनवरी 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

संदीप निनावे (एमएस-15820के) (एमआर-09277ए), एएमसी,
25 अप्रैल 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 25 दिसम्बर 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

लेफ्टिनेन्ट के पद पर

अनुज अग्रवाल (एमएस-15295वाई) (एमआर-09273के), एएमसी, 13 मार्च 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 मई 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

सौरभ शर्मा (एमएस-15527एम) (एमआर-09268वाई), एएमसी,
26 मार्च 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 जनवरी 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

विपिन सुकुमारन (एमएस-15535एल) (एमआर-09262एक्स), एएमसी, 26 मार्च 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 जनवरी 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

इन्द्रनील सामंता (एमएस-15280डब्ल्यू) (एमआर-09252एन), एएमसी, 13 मार्च 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 फरवरी 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

नित्या नायर (एमएस-15507वाई) (एमआर-09241एफ), एएमसी,
26 मार्च 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 जनवरी 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

यश पांडे
ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मासं)

सं. 239, दिनांक 29 मई 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

शुद्धि पत्र

भारत के राजपत्र सं. 303 दिनांक 07 जून 2011 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 29 दिनांक 16 जुलाई 2011 शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक इन्फैन्ट्री और मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

सूबेदार के रैंक में

के स्थान पर

के अरुल (14915510 एल अब जे सी-421917 वाई) 01 अप्रैल 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

पढ़ा जाए

के अरुल (14915510 एल अब जे सी-421917 वाई) 09 अप्रैल 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

के स्थान पर

हवलदार हरबंस लाल (14916567 के अब जे सी-421933 डब्ल्यू)
01 अप्रैल 2011

पढ़ा जाए

हवलदार हरबंस लाल (14916597 के अब जे सी-421933 डब्ल्यू)
01 अप्रैल 2011

के स्थान पर

हवलदार हरी किशन (14919626 एम अब जे सी-421946 एन)
01 अप्रैल 2011

पढ़ा जाए

हवलदार हरी किशन (14919629 एम अब जे सी-421946 एन)
01 अप्रैल 2011

भारत के राजपत्र सं. 181 दिनांक 16 मार्च 2011 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 19 दिनांक 07 मई 2011 शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक इन्फैन्ट्री और मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

सूबेदार के रैंक में

के स्थान पर

हवलदार उत्तम चंद (14917016 एन अब जे सी-421779 एच)
24 दिसम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

पढ़ा जाए

हवलदार उत्तम चंद (14917016 एन अब जे सी-421779 एच)
24 दिसम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

के स्थान पर

हवलदार महाराम सिंह (14916111 एन अब जे सी-4217831 एल)
01 जनवरी 2011

पढ़ा जाए

हवलदार महाराम सिंह (14916111 एन अब जे सी-421783 एल)
01 जनवरी 2011

सुभ्रत करमाकर
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 23rd June 2012

D(MS)/SECTION

No. 234, dated 25th May 2012—The President has made the following appointment on her Honorary Personal Staff with effect from 01 April 2012:—

Honorary Army ADC (Arty/AAD)

(IC-25815M) Lt Gen Gurdeep Singh, PVSM, AVSM, VSM, Arty

Vice

(IC-25544A) Lt Gen Vinod Nayanar, PVSM, AVSM, Arty (Retd)

R SUNDER
Under Secy

REGULAR ARMY

MILITARY NURSING SERVICES

(PERMANENT COMMISSION)

No. 235, dated 25th May 2012—The President is pleased to grant Permanent Commission to undermentioned Nursing Officer (s) in Military Nursing Services (Regular) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No. 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 3/98 with effect from 08 Aug 2011 [Seniority from 08 Aug 2010 for promotion and pay fixation being BSc (Nursing)] :—

To be Lt on Probation

Lt Kiran Jeena (NR-22822X), 21 Sep 1986

Lt Chanchal Sharma (NR-22823A), 30 Jun 1989

Lt Kirti Rawat (NR-22824H), 20 Feb 1989

Lt Yamini Joshi (NR-22825L), 13 Feb 1988

Lt Mamta Sharma (NR-22826N), 29 Apr 1985

Lt Monika Sangwan (NR-22827W), 27 Jul 1989

Lt Kusum Gusain (NR-22828Y), 12 Jun 1985

Lt Midhy K (NR-22829F), 07 Jul 1987

Lt Joyeeta Mitra (NR-22830W), 20 Nov 1985

Lt Priyanka Kumari (NR-22831Y), 18 Jun 1988

Lt Poonam Maurya (NR-22832F), 04 Feb 1983

Lt Caroline Christina Francis (NR-22833K), 22 Aug 1989

Lt Pooja Rani (NR-22834M), 09 Aug 1987

Lt Aparna NR (NR-22835P), 15 Jul 1988

Lt Joonti Jaan Das (NR-22836X), 22 Feb 1989

Lt Deeksha Parmar (NR-22837A), 10 Mar 1989

Lt Suman Ohlan (NR-22838H), 21 Dec 1987

Lt Richa Singh (NR-22839L), 25 Jun 1986

Lt Ridhima (NR-22840A), 01 Feb 1987

Lt Chathely Sheena Jacob (NR-22841H), 11 Jan 1989

Lt Akansha Tiwari (NR-22842L), 20 Dec 1986

Lt Shanti MN (NR-22843N), 03 May 1987

Lt Sandhya Kumari (NR-22844W), 20 Mar 1986

Lt Amita Ujjwal (NR-22845Y), 23 Jul 1987

Lt Nishi Kanta Bilung (NR-22846F), 18 Jun 1988

Lt Pushpa (NR-22847K), 06 Aug 1987

Lt Roopa Bora (NR-22848M), 15 Sep 1987

Lt Jency Anto Jenifer C (NR-22849P), 01 Jun 1988

Lt Pooja Negi (NR-22850K), 16 Mar 1988

The President is pleased to grant Permanent Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services (Regular) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No. 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 3/98 with effect from 17 Feb 2011 [Seniority from 17 Feb 2010 for promotion and pay fixation being BSc (Nursing)] :—

Lt Mamta Chauhan (NR-22753M), 01 Jan 1985

The President is pleased to grant Permanent Commission & Short Service Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services (Regular & SSC) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No. 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 and GoI, MoD letter No. 4(3)/2007/D/(Medical) dated 02 Nov 2007 as amended from time to time read with AI 17/96 & AI 3/98 with effect from 01 Mar 2011:—

Lt Rashmi Kumari (NR-22754P), 15 Aug 1987

Lt Jyoti Mishra (NR-22755X), 19 Jun 1988

Lt Sona Verma (NR-22756A), 02 Oct 1984

Lt Shivangi Chettri (NR-22757H), 04 Aug 1987

Lt Neelam Kunwar (NR-22758L), 18 Jun 1983

Lt Nisha Chahar (NR-22759N), 04 Jul 1988

Lt Lunngaihkim Zou (NR-22760H), 26 Mar 1989

Lt Sangita Dey (NR-22761L), 23 Aug 1987
 Lt Aneena Aniyan K (NR-22762N), 28 May 1985
 Lt Gayatri Patra (NR-22763W), 06 Jun 1985
 Lt Sudha Jha (NR-22764Y), 22 Aug 1987
 Lt Kavitha B (NR-22765L), 14 May 1986
 Lt Sumi S Sivan (NR-22766K), 27 Feb 1988
 Lt Nutun Yadav (NR-22767M), 10 Mar 1989
 Lt Sumi Tehlan (NR-22768P), 05 Aug 1989
 Lt Tripti Kala (NR-22769X), 09 Jul 1987
 Lt Neelam Tomar (NR-22770M), 10 Jan 1989
 Lt Poonamjit Kaur (NR-22771P), 19 Feb 1989
 Lt Ritu Kumari (NR-22772X), 13 Mar 1985
 Lt Rubina D Vishwanath (NR-22773A), 11 Jan 1988
 Lt Jyotsna (NR-22774H), 07 Aug 1984
 Lt Arpita Kumari (NR-22775L), 17 Dec 1987
 Lt Pushpa (NR-22776N), 23 Jan 1988
 Lt Kavita Kumari (NR-22777W), 04 Apr 1989
 Lt Sreedevi CC (NR-22778Y), 29 Dec 1986
 Lt Priyanka Sharma (NR-22779F), 08 Jul 1987
 Lt Sujata Saha (NR-22780W), 18 Apr 1983
 Lt Hima K K (NR-22781Y), 17 Feb 1989
 Lt Saroj Kumari Gupta (NR-22782F), 05 Jun 1987
 Lt Simarjot Kaur (NR-22783K), 13 Dec 1986
 Lt Minakshi Jangra (NR-22784M), 01 Jul 1988
 Lt Salma VS (NR-22785P), 15 Dec 1986
 Lt Anu M (NR-22786X), 31 May 1989
 Lt Karthika S (NR-22787A), 17 Jan 1989
 Lt Pooja Kumari (NR-22788H), 09 Jun 1984
 Lt Gautami Sarswati (NR-22789L), 19 Oct 1984
 Lt Sunita (NR-22790A), 03 Nov 1986
 Lt Veen Rao (NR-22791H), 08 Aug 1987
 Lt Divya V (NR-22792L), 21 Dec 1988
 Lt Shruti Kaimal (NR-22793N), 16 Jan 1988
 Lt Babitha K (NR-22794W), 17 Dec 1988
 Lt Saba Rashid (NS-22795Y), 30 Sep 1985
 Lt Mina Thapa (NS-22796F), 25 Nov 1987
 Lt Anita Devi (NS-22797K), 04 Jul 1988
 Lt Sreena C (NS-22798M), 13 Dec 1987
 Lt Jaswinder Kaur (NS-22799P), 21 Nov 1986

Lt Mrinalini (NS-22800Y), 12 Jul 1988
 Lt Suman Kumari (NS-22801F), 01 Jun 1989
 Lt Mamta (NS-22802K), 11 Dec 1988
 Lt Seeniya Sahadevan (NS-22803M), 09 Nov 1987
 Lt Vinita Singh (NS-22804P), 18 Apr 1988
 Lt Swati (NS-22805X), 07 Aug 1988
 Lt Roshna P (NS-22806A), 03 Dec 1988
 Lt Kumari Anuradha (NS-22807H), 15 Feb 1989
 Lt Jyoti Kumari Dhama (NS-22808L), 24 Aug 1988
 Lt Geeta Mehta (NS-22809N), 28 Apr 1989
 Lt Shweta Gaur (NS-22810H), 11 Nov 1986
 Lt Ramya K (NS-22811L), 15 Feb 1988
 Lt Usha Kumari (NS-22812N), 06 Feb 1987
 Lt Chaitali Nath (NS-22813W), 19 Sept 1987
 Lt Madhu Bala (NS-22814Y), 15 Aug 1989
 Lt Ambika CR (NS-22815F), 16 Nov 1987
 Lt Sunita Chauhan (NS-22816K), 15 Jun 1988
 Lt Mary Neethu Joseph (NS-22817M), 12 Oct 1988
 Lt Joshna MK (NS-22818P), 11 Sep 1987
 Lt Vinu Pandey (NS-22819X), 12 Aug 1989
 Lt Divya TH (NS-22820M), 05 Nov 1982
 Lt VK Sruthi (NS-22821P), 10 Nov 1987

The President is pleased to grant Permanent Commission to undermentioned Nursing Officer (s) in Military Nursing Services (Regular) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No. 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 3/98 with effect from 07 Aug 2010 [Seniority from 07 Aug 2009 for promotion and pay fixation being BSc (Nursing)] :—

Lt Prerana Singh (NR-22377K), 03 Nov 1983
 Lt Chandana C (NR-22378M), 11 Mar 1988
 Lt Gita Devi (NR-22379P), 17 Jun 1987
 Lt Geetanjali Sehgal (NR-22380K), 05 Sep 1987
 Lt Bhawna Gaur (NR-22381M), 16 May 1988
 Lt Sunita Devi (NR-22382P), 10 Jun 1986
 Lt Lorena Dorothee Prakash (NR-22383X), 15 Nov 1987
 Lt Deepika Sheroun (NR-22384A), 11 Aug 1986
 Lt Neelam Chand (NR-22385H), 14 Mar 1985
 Lt Priyanka Chaubey (NR-22386L), 25 May 1987
 Lt Christina (NR-22387N), 03 Feb 1988
 Lt Saniya Thakur (NR-22388W), 08 Oct 1987

Lt Archana Sharma (NR-22389Y), 27 Oct 1985
 Lt Sumith Mathew (NR-22390N), 20 Feb 1987
 Lt Suman Kumari (NR-22391W), 22 Jul 1987
 Lt Kanchan Bala Kundal (NR-22392Y), 08 Mar 1987
 Lt Pratibha Rani (NR-22393F), 31 Oct 1987
 Lt Neha Katoch (NR-22394K), 20 Nov 1984
 Lt Rajani R (NR-22395M), 15 Feb 1988
 Lt Sijo K Thomas (NR-22396P), 05 Aug 1986
 Lt Sita Devi (NR-22397X), 17 Jun 1987
 Lt Jiji V Nair (NR-22398A), 17 Apr 1987
 Lt Sheetal (NR-22399H), 27 Jan 1984
 Lt Sonika Chhetri (NR-22400M), 05 Mar 1988
 Lt Usha Pandey (NR-22401P), 09 Dec 1985
 Lt Deepa Bisht (NR-22402X), 25 Mar 1985
 Lt Savita Pandey (NR-22403A), 22 Aug 1987
 Lt Suman Verma (NR-22404H), 09 Dec 1985
 Lt Rini Raj (NR-22405L), 26 Mar 1987

JK GREWAL
 Maj Gen
 Addl DGMNS

REGULAR ARMY
 (PERMANENT COMMISSION)

No. 236, dated 28th May 2012—The President is pleased to made the following promotion in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against each name :—

Lt Col (Select) to Col

Col Lethilekha MK (NR-17161Y), 18 May 2011
 Col I D Rai (NR-16482K), 01 Jun 2009
 Col Shyamali Sen (NR-16827A), 01 Jul 2009
 Col P G Usha Devi (NR-17213K), 04 Jul 2011

Lt Col (TS) to Lt Col (Select)

Lt Col Uma Seerah (NR-17655H), 01 Oct 2009
 Lt Col Shyamali Sen (NR-16827A), 29 Dec 2004
 Lt Col Lethilekha MK (NR-17161Y), 04 Jun 2007
 Lt Col I D Rai (NR-16482K), 12 Apr 2005
 Lt Col T V Rajalakshmi (NR-17646F), 01 Oct 2009
 Lt Col P G Usha Devi (NR-17213K), 30 Jun 2007
 Lt Col A K Mercy (NR-17380A), 14 Jul 2008
 Lt Col N Lalitha (NR-17747P), 15 Jun 2010
 Lt Col Vasantha Kumari G (NR-16945N), 03 Jul 2006

Lt Col T Mathews (NR-16654N), 20 Dec 2004
 Lt Col Savithriamma (NR-17402N), 22 Sep 2008
 Lt Col Rajpaljit Kaur (NR-16852Y), 03 Jul 2006
 Lt Col P S Kusumakumari (NR-18058A), 16 Sep 2011
 Lt Col Alice V S (NR-17980H), 01 Aug 2011
 Lt Col Vigneswari K Ammal (NR-17991P), 17 Aug 2011
 Lt Col Kunjumol P (NR-18018Y), 17 Aug 2011
 Lt Col Sudhamani C K (NR-18022F), 17 Aug 2011
 Lt Col G Vasundhara Devi (NR-18044A), 17 Aug 2011
 Lt Col Malvika Choudhary (NR-18052Y), 17 Aug 2011
 Lt Col Manoj Bhatt (NR-18225L), 17 Aug 2011
 Lt Col A B Sarla (NR-18239L), 17 Aug 2011
 Lt Col Punita A Sharma (NR-18243N), 17 Aug 2011

Maj to Lt Col (TS)

Lt Col Alice George (NR-19023W), 08 Jul 2007
 Lt Col Devaki Devi K M (NR-19026K), 08 Jul 2007
 Lt Col Anup Kumari (NR-19032X), 08 Jul 2007

Capt to Maj

Maj Pushplata Rawat (NR-21243Y), 02 Aug 2011
 Maj Radha (NR-21244F), 02 Aug 2011
 Maj Pooja Sharma (NR-21245K), 02 Aug 2011
 Maj Manju Rana (NR-21246M), 02 Aug 2011
 Maj Shipra Dorothy Roy (NR-21247P), 02 Aug 2011
 Maj Poonam (NR-21249A), 02 Aug 2011
 Maj Priyam Saramma Varghese (NR-21250P), 02 Aug 2011
 Maj Jaya Sharma (NR-21251X), 02 Aug 2011
 Maj Seema Thomas (NR-21252A), 02 Aug 2011
 Maj Shruti Singh (NR-21253H), 02 Aug 2011
 Maj Preeti Upadhyay (NR-21254L), 02 Aug 2011
 Maj Rosy Rout (NR-21255N), 02 Aug 2011
 Maj Chanchal Rani (NR-21257Y), 02 Aug 2011
 Maj Nisha Kumari Pandit (NR-21258F), 02 Aug 2011
 Maj Pooja Sharma (NR-21259K), 02 Aug 2011
 Maj Pratima Rawat (NR-21260Y), 02 Aug 2011
 Maj Preethamole Babu (NR-21262K), 02 Aug 2011
 Maj Bhawna Budhori (NR-21263M), 02 Aug 2011
 Maj Kamlesh Kumari Mishra (NR-21264P), 02 Aug 2011

Maj Arti Mishra (NR-21265X), 02 Aug 2011	Capt R Kalaivani (NR-21947H), 13 Aug 2011
Maj Noor Jahan (NR-21266A), 02 Aug 2011	Capt Sapna Tiwari (NR-21948L), 13 Aug 2011
Maj Neelam Rathore (NR-21267H), 02 Aug 2011	Capt Vidushi Solanki (NR-21949N), 13 Aug 2011
Maj Reena (NR-21268L), 02 Aug 2011	Capt Sapna Kaushik (NR-21950H), 13 Aug 2011
Maj Sandhya R Nair (NR-21269N), 02 Aug 2011	Capt Geethu Chandradas (NR-21951L), 13 Aug 2011
Maj Thokchom Radha Pyari Devi (NR-21270H), 02 Aug 2011	Capt Pallavi Yadav (NR-21952N), 13 Aug 2011
Maj Sathi Biswas (NR-21271L), 02 Aug 2011	Capt Prabhjot Kaur (NR-21953W), 13 Aug 2011
Maj Lipika Dey (NR-21272N), 02 Aug 2011	Capt Jyothi Lekshmi MR (NR-21954Y), 13 Aug 2011
Maj Rajani Jagdeva (NR-21273W), 02 Aug 2011	Capt Tripti Singh (NR-21955F), 13 Aug 2011
Maj Leena K (NR-21274Y), 02 Aug 2011	Capt Suman Giri (NR-21956K), 13 Aug 2011
Maj Arpana (NR-21275F), 02 Aug 2011	Capt Dipali Suresh Mane (NR-21957M), 13 Aug 2011
Maj Delphine Alexander Peter (NR-21276K), 02 Aug 2011	Capt Pooja Negi (NR-21958P), 13 Aug 2011
Maj Pooja (NR-21277M), 02 Aug 2011	Capt Aswathy PV (NR-21959X), 13 Aug 2011
Maj Jhankrita Halder (NR-21278P), 02 Aug 2011	Capt Nitika Sood (NR-21960M), 13 Aug 2011
Maj Jyoti Prabha Sharan (NR-21279X), 02 Aug 2011	Capt Ranjana Banik (NR-21961P), 13 Aug 2011
Maj Pushpa Bhatt (NR-21280M), 02 Aug 2011	Capt Olivia Banerjee (NR-21962X), 13 Aug 2011
Maj Rehna V R (NR-21281P), 02 Aug 2011	Capt Sarita Rawat (NR-21963A), 13 Aug 2011
Maj Moumita Adhikari (NR-21282X), 02 Aug 2011	Capt Soumi Sarkar (NR-21964H), 13 Aug 2011
Maj Pooja Jha (NR-21285L), 02 Aug 2011	Capt Pushpa Sharma (NR-21965L), 13 Aug 2011
Maj Arti Rani (NR-21287W), 02 Aug 2011	Capt Sapna Gagda (NR-21966N), 13 Aug 2011
Maj Rachna Chauhan (NS-21292F), 02 Aug 2011	Capt Bipasha Roy (NR-21967W), 13 Aug 2011
Maj Parna Mallik (NS-21294N), 02 Aug 2011	Capt Priyanka Chandra (NR-21968Y), 13 Aug 2011
Maj Saroj (NS-21295P), 02 Aug 2011	Capt Lakra Susan JF (NR-21969F), 13 Aug 2011
Maj Prem Lata (NR-21297A), 02 Aug 2011	Capt Smruthi M (NR-21970W), 13 Aug 2011
Maj Pooja Sharma (NS-21299L), 02 Aug 2011	Capt Deepthiraj C (NS-21870L), 16 Mar 2011
Maj A Valarmathi (NS-21301X), 02 Aug 2011	Capt Helen Prema S (NS-21871N), 16 Mar 2011
Maj M V Indu (NR-21303H), 02 Aug 2011	Capt Kavithai Senduri VGS (NS-21872W), 16 Mar 2011
Maj Sreelima Nair (NS-21306W), 02 Aug 2011	Capt Nagoori Shabana Azmi (NS-21873Y), 16 Mar 2011
Maj Akansha Haldar (NS-21307Y), 02 Aug 2011	Capt M Prema (NS-21874F), 16 Mar 2011
Maj Nitha K (NS-21308F), 02 Aug 2011	Capt ST Jayachandra (NS-21875K), 16 Mar 2011
Maj Anjali Chauhan (NS-21311F), 02 Aug 2011	Capt Sreedevi Achanghat (NS-21876M), 16 Mar 2011
Maj Merina Soni Bernard (NS-21288Y), 03 Aug 2011	Capt Malathi P (NS-21877P), 16 Mar 2011
Lt to Capt	Capt G Papagandhi (NS-21878X), 16 Mar 2011
Capt Manisha Sharma (NR-21944P), 13 Aug 2011	Capt Manden Gnana Prasoon (NS-21879A), 16 Mar 2011
Capt Gunjan Naagar (NR-21945X), 13 Aug 2011	Capt Ramalakshmi A (NS-21880P), 16 Mar 2011
Capt Akhila V (NR-21946A), 13 Aug 2011	Capt Anisha UM (NS-21881X), 16 Mar 2011

Capt Ramya R (NS-21830K), 05 Jan 2011
 Capt Nithya S (NS-21831M), 05 Jan 2011
 Capt Neha (NS-21833X), 05 Jan 2011
 Capt G Devi (NS-21834A), 05 Jan 2011
 Capt Rani Kalpana R (NS-21835H), 05 Jan 2011
 Capt Snehlata (NS-21836L), 05 Jan 2011
 Capt Ponmani A (NS-21837N), 05 Jan 2011
 Capt Kolhe Vanita Sahebrao (NS-21838W), 05 Jan 2011
 Capt Venuthai (NS-21839Y), 05 Jan 2011
 Capt Sarabhjit Kaur Mann (NS-21840N), 05 Jan 2011
 Capt Lugailu Daimei (NS-21841W), 05 Jan 2011
 Capt Astha Lakshmi R (NS-21842Y), 05 Jan 2011
 Capt Amrita Sahu (NS-21843F), 05 Jan 2011
 Capt Rajlaxmi (NS-21844K), 05 Jan 2011
 Capt C Valarmathi (NS-21845M), 05 Jan 2011
 Capt Ranjini K (NS-21846P), 05 Jan 2011
 Capt MS Maithili (NS-21847X), 05 Jan 2011
 Capt Mary Vungthianmoi (NS-21849H), 05 Jan 2011
 Capt G R Janaki (NS-21851A), 05 Jan 2011
 Capt M D Zaharabee (NS-21852H), 05 Jan 2011
 Capt Rinu Mathew (NS-21853L), 05 Jan 2011
 Capt Nimreichon Duidong (NS-21854N), 05 Jan 2011
 Capt Vani S (NS-21855W), 05 Jan 2011
 Capt Deepa P (NS-21856Y), 05 Jan 2011
 Capt P Shanthanalakshmi (NS-21857F), 05 Jan 2011
 Capt V Elamathi (NS-21858K), 05 Jan 2011
 Capt D Chitra (NS-21859M), 05 Jan 2011
 Capt Khwairapam Memthoi Devi (NS-21860F), 05 Jan 2011
 Capt Sujisha O P (NS-21861K), 05 Jan 2011
 Capt S Arokiamari (NS-21862M), 05 Jan 2011
 Capt Jayandhi (NS-21863P), 05 Jan 2011
 Capt S Santhi (NS-21864X), 05 Jan 2011
 Capt Vijayalakshmi (NS-21865X), 05 Jan 2011
 Capt Lodha Khushali Suman Sinh (NS-21866H), 05 Jan 2011
 Capt Vanajaxi B Bhavikatti (NS-21867L), 05 Jan 2011

Capt S Packia Lakshmi (NS-21868N), 05 Jan 2011

J K GREWAL
 Maj Gen
 Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 237, dated 28th May 2012—The President is pleased to made the promotion of the undermentioned AMC officer with effect from the date mentioned against him/her :—

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

To be Maj

Dipak Hira (MS-15746N) (MR-09246A), AMC, 25 Oct 2009

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Jul 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Singh Sudheer Akhilesh Kumar (MS-15600A) (MR-09239K), AMC, 06 Mar 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Jul 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

To be Capt

Nithya Nair (MS-15507Y) (MR-09241F), AMC, 06 Feb 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 18 Oct 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Indranil Samanta (MS-15280W) (MR-09252N), AMC, 20 Feb 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 05 Jul 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Vipin Sukumaran (MS-15535L) (MR-09262X), AMC, 06 Feb 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 18 Oct 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Saurabh Sharma (MS-15527M) (MR-09268Y), AMC, 06 Feb 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 23 Aug 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Anuj Aggarwal (MS-15295Y) (MR-09273K), AMC, 20 Feb 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 24 Nov 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

YASH PANDE
 Brig
 Dy DG AFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 238, dated 29th May 2012—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 27 Dec 2010 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

To be Maj

Debkalyan Maji (MS-15710P) (MR-09240Y), AMC, 25 Oct 2011

Braj Kishore Singh (MS-15734Y) (MR-09245X), AMC, 25 Oct 2011

To be Capt

Sunandan Bhatta (MS-15706M) (MR-09238F), AMC, 25 Apr 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 25 Dec 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Singh Sudheer Akhilesh Kumar (MS-15600A) (MR-09239K), AMC, 06 Sep 2007, with seniority for pay and promotion from 06 Mar 2004 (this includes 36 months antedate Seniority for PG Degree MD (PSM) and 06 months for Housejob, which will not count for gratuity)

(MoD Notification published in Gazette of India dated 13 Mar 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Debkalyan Maji (MS-15710P) (MR-09240Y), AMC, 25 Apr 2008, with seniority for pay and promotion from 25 Oct 2007 (this includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity)

(MoD Notification published in Gazette of India dated 02 Feb 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Sunil Mathews (MS-15722K) (MR-09244P), AMC, 25 Apr 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 16 May 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Vishal Verma (MS-15826L) (MR-09243M), AMC, 13 May 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 16 May 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Kiran Maribashetti (MS-15576P) (MR-09242K), AMC, 06 Sep 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 May 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Braj Kishore Singh (MS-15734Y) (MR-09245X), AMC, 25 Apr 2008, with seniority for pay and promotion from 25 Oct 2007 (this includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity)

(MoD Notification published in Gazette of India dated 02 Jan 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Dipak Hira (MS-15746N) (MR-09246A), AMC, 25 Apr 2008, with seniority for pay and promotion from 25 Oct 2005. This includes 30 months antedate Seniority (24 months for PG Diploma in Obstetrics & Gynaecology and 06 months for Hospital Appointment) which will not count for gratuity.

(MoD Notification published in Gazette of India dated 02 Jan 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Meenakshi Rajput (MS-15891L) (MR-09247H), AMC, 12 Aug 2008, with seniority for pay and promotion from 12 Feb 2008 (this includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity).

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Jul 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Deepak Pokhariya (MS-15735F) (MR-09253W), AMC, 25 Apr 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 22 Aug 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Dilip Kumar Deepak (MS-15767K) (MR-09254Y), AMC, 25 Apr 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 13 Mar 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Narendra Kumar Madhukar (MS-15830N) (MR-09255F), AMC, 22 May 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 16 May 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Gaurav Kulshrestha (MS-15762L) (MR-09258P), AMC, 25 Apr 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 16 May 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Manu N (MS-15871X) (MR-09259X), AMC, 12 Aug 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 13 Mar 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Brajmohan Chaudhary (MS-15785M) (MR-09251L), AMC, 25 Apr 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 16 May 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Kuldeep Mertiya (MS-15759L) (MR-09260M), AMC, 25 Apr 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 16 May 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Shruti (MS-15557K) (MR-09261P), AMC, 05 Jun 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 27 Dec 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Felson Francis V (MS-15721F) (MR-09264H), AMC, 25 Apr 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 16 May 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Patel Kashyapkumar Chandrakantbhai (MS-15849M) (MR-09265L), AMC, 12 Aug 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 13 Mar 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Aditya Gupta (MS-15764W) (MR-09266N), AMC, 25 Apr 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Sep 2011 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Anjan P (MS-15705K) (MR-092569F), AMC, 25 Apr 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 16 May 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Anil Kumar Sharma (MS-15912W) (MR-09272F), AMC, 12 Aug 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 01 May 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Bhupendra Singh (MS-15729L) (MR-09274M), AMC, 25 Apr 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 16 May 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Sachin Sharma (MS-15841A) (MR-09276X), AMC, 22 May 2008, with seniority for pay and promotion from 22 Nov 2007 (this includes 06 months ante date for hospital appointment which will not count for gratuity)

(MoD Notification published in Gazette of India dated 02 Jan 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Sandeep Ninawe (MS-15820K) (MR-09277A), AMC, 25 Apr 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 25 Dec 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Anuj Aggarwal (MS-15295Y) (MR-09273K), AMC, 13 Mar 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 12 May 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Saurabh Sharma (MS-15527M) (MR-09268Y), AMC, 26 Mar 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 12 Jan 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Vipin Sukumaran (MS-15535L) (MR-09262X), AMC, 26 Mar 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 12 Jan 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Indranil Samanta (MS-15280W) (MR-09252N), AMC, 13 Mar 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Feb 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Nithya Nair (MS-15507Y) (MR-09241F), AMC, 26 Mar 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 12 Jan 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

YASH PANDE
Brig
Dy DGAFMS (HR)

AMRY BRANCH

No. 239, the dated 29th May 2012—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

CORRIGENDUM

In the Ministry of Defence Notification No. 303 dated 07th Jun 2011 published in the Gazette of India serial No. 29 dated 16 Jul 2011 under heading "Regular Army" Sub heading "Records The MIR" below:—

To be Subs Nb Sub

For

Hav K Arul (No. 14915510L now JC-421917Y), 01 Apr 2011*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Read

Hav K Arul (No. 14915510L now JC-421917Y), 09 Apr 2011*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

For

Hav Harbans Lal (No. 14916567K now JC-421933W), 01 Apr 2011

Read

Hav Harbans Lal (No. 14916597K now JC-421933W), 01 Apr 2011

For

Hav Hari Kishan (No. 14919626M now JC-421946N), 01 Apr 2011

Read

Hav Hari Kishan (No. 14919629M now JC-421946N), 01 Apr 2011

In the Ministry of Defence Notification No. 181 dated 16th Mar 2011 published in the Gazette of India serial

No. 19 dated 7 May 2011 under heading "Regular Army" Sub heading "Records The MIR" below:—

To be Subs Nb Sub

For

Hav Uttam Chand (No. 14917016N now JC-421779H), 24 Dec 2011*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Read

Hav Uttam Chand (No. 14917016N now JC-421779H), 24 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

For

Hav Maharam Singh (No. 14916111N now JC-4217831L), 01 Jan 2011

Read

Hav Maharam Singh (No. 14916111N now JC-421783L), 01 Jan 2011

SUBHABARTA KARMAKAR
Under Secy

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012